

# SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

Member: NSE • BSE • MSE • NCDEX • MCX Clearing & Trading Member : Cash, F&O, Currency, Debt & Commodity SEBI Regn. No. : INZ 000199438 • Research Analyst No. : INH100001849

 Regd. Office : 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

 Ph : +91-11-30111000, 40753333
 Fax : +91-11-25754365 • CIN No. : L74899DL1994PLC063609

 E-mail : smc@smcindiaonline.com
 Website : www.smcindiaonline.com

Date: 28th May, 2024

Listing Operations	Listing Department
BSE Limited,	National Stock Exchange of India Limited,
P J Towers, Dalal Street, Mumbai-	Exchange Plaza, C-1, Block G,
400001, India	Bandra Kurla Complex,Bandra
	(E ) Mumbai – 400051
Scrip Code: 543263	Symbol: SMCGLOBAL

#### <u>Sub: Public Notice for conducting the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company</u> <u>through Video Conferencing (VC) /Other Audio-Visual Means (OVAM).</u>

Dear Sir/Ma'am,

In pursuance of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper advertisements of the Public Notice published on 28<sup>th</sup> May, 2024 for conducting the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, 22<sup>nd</sup> June, 2024 through VC/OVAM in compliance with MCA circulars. The advertisement has been made in the following newspapers:

- a) Financial Express in English
- b) Jansatta in Hindi

This will also be hosted on the Company's website at www.smcindiaonline.com

This is for your information and record.

#### For SMC Global Securities Limited

Suman Kumar E.V.P. (Corporate Affairs & Legal), Company Secretary & General Counsel Membership No. F5824

MUMBAI OFFICE : A Wing, 401/402, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Off Western Express Highway, Jay Coach Signal, Goregaon East Mumbai-400063 Ph : +91-22-67341600, 66481818 Fax : +91-22-67341697 E-mail : smcmumbai@smcindiaonline.com 24

# **30TH AGM OF SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED** TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/ OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circular dated 05th May, 2020 read with other circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 recent circular dated December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 collectively referred as ('MCA Circulars') and pursuant to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is conducting its 30th Annual General Meeting (AGM) on Saturday, 22nd day of June, 2024 at 11:00 A.M. through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) in accordance with the provisions of the aforesaid circulars and without the presence of Members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the registered office of the Company.

By virtue of the exemption granted by aforementioned MCA circulars, the Company is conducting its AGM through VC and servicing the documents to all the shareholders through email. Accordingly, the Company requests all the shareholders who have not yet registered their email addresses or has not updated their email addresses with the Company to register the same at the earliest. The process of registration of email address is provided below:

Request for registration of Email Address- Members are requested to submit their request with their valid e-mail address, mobile number, bank account details for receipt of dividend and/or other details in Form ISR-1 as prescribed by SEBI, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in or can submit their request through post at Noble Heights, 1st Floor, Plot No.2 C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi - 110058. Request for updation of Email Address- Members holding shares in demat form and who intends to register a new email address/update their existing e-mail addresses are requested to provide the details to their respective Depository Participant(s).

Please note that shareholders who do not register their email address shall not be able to receive the notice of AGM and other related documents. The details w.r.t. voting process and user ID and password for voting at the e-voting platform shall be provided to the shareholders through email. In this regard, the Members who have not registered their email addresses with the Company can still cast their vote through remote e-voting after obtaining the login ID and password for remote e-voting by applying to Link Intime India Pvt. Ltd. at enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-4918 6000. The registration and voting process is prescribed in detail in the Notice of the AGM.

Members may note that the Notice of AGM will be made available on the Company's website www.smcindiaonline.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Ws Link Intime India Pvt. Ltd at https://instavote.linkintime.co.in and shall also be disseminated on the stock exchanges where the securities of the Company are listed.

Members holding shares in electronic form may take note that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Company for payment of dividend. In this regard, the Members who fail to provide their bank account details, the Company shall provide with dividend cheque/Demand Draft to such shareholders. The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31st March, 2024 is 7th June, 2024. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 8th June, 2024 to 12th June, 2024 (Both days inclusive).

In case shareholders/ members have any queries, they may send an email to instameet@linkintime.co. in or contact on: - Tel: 022-49186175.

For SMC Global Securities Limited

# Sd/-

(Suman Kumar)

E.V.P. (Corporate Affairs & Legal), Company Secretary & General Counsel Date : 28th May, 2024 Place : New Delhi

# Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLC063609)

Registered Office : 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005 Ph: +91-11-30111000, 40753333 | Fax: +91-11-25754365

# ۳Ĥ TERA SOFTWARE LIMITED

Regd. Office: #8-2-293/82/A/1107, Plot No 1107, Road No 55, Jubilee Hills, Hyderabad-33. TERA SOFT CIN: L72200TG1994PLC018391, Website: www.terasoftware.com, Tel: 040 2354 7447

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER	RAND
YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024	Rupees in Lakhs

	(	Quarter Ended		For the Year Ended		
PARTICULARS	31-03-2024 Audited	31-12-2023 Unaudited	31-03-2023 Audited	31-03-2024 Audited	31-03-2023 Audited	
Total Income from operations	2,419.41	2,163.43	4,664.49	8,841.13	15,595.96	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	215.66	131.89	354.59	752.69	865.56	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after Exceptional and Extraordinary items)	215.66	131.89	354.59	613.22	865.56	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	171.90	111.05	350.15	344.65	346.58	
Total Comprehensive income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (aftertax)}	41.07	8.72	(3.65)	117.60	(3.65)	
Equity Share Capital	1,251.19	1,251.19	1,251.19	1,251.19	1,251.19	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of current year)	-		-	9,997.91	9,535.65	
Earning Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-	-	
Basic	1.37	0.89	2.80	2.75	2.77	
Diluted	1.37	0.89	2.80	2.75	2.77	

#### STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH. 2024

			Rupees in Lakhs	
	Quarte	Quarter Ended		
PARTICULARS	31-03-2024 Audited	31-12-2023 Unaudited	31-03-2024 Audited	
Total Income from operations	2,419.41	2,163.43	8,841.13	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	215.66	131.89	752.19	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after Exceptional and Extraordinary items)	215.66	131.89	612.72	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	171.90	111.00	344.15	
Total Comprehensive income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (aftertax)}	24.55	8.72	83.32	
Equity Share Capital	1,251.19	1,251.19	1,251.19	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of current year)			9,997.41	
Earning Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic	1.37	0.89	2.75	
Diluted	1.37	0.89	2.75	

## Notes:

1 The above financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 27th May, 2024

This statement is as per regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial results of the Company were prepared in accordance with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the act") read with relevant rules issued there under ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India and guidelines issued by the Securities and Exchange Boardof India ("SEBI").

Fixed Assets of the company with gross block value of Rs.838.69 Lakhs have been subjected to an Ad-interim attachment by the sessions court. Vijavawada on the application by the Govt. of. AP. The court has ordered the company prohibiting the transfer or alienating the listed properties till further orders. 4 Corresponding guarter/Year figures have been re-grouped /re-classified wherever necessary to confirm to the classification of the current period.

5 The figures of the last quarter are the balancing figures between Audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up to

the third quarter of the relevant financial years, which were subjected to limited review by the statutory Auditors.

#### For Tera Software Limited T. Gopichand Chairman & Managing Director

DIN: 00107886

'IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

#### HOWARD HOTELS LIMITED Read Office:- 20, Maurya Complex, B-28 Subhash Chowk, Laxmi Nacar, New Delhi-110092 Corp. Off.: Hotel Howard plaza, Fatehabad Road, Agra-282001 CIN-L74899DL1989PLC038622, Tel: 0562-404-8600, Fax: 0562-404-8666 Email: info@howardhotelsltd.com, Website: www.howardhotelsltd.com

# EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

S.		Qi	uarter Endeo	d	Year	Ended
No.	Particulars	31-Mar-24 (Audited) (Refer Note 4)	31-Dec-23 (Unaudited)	31-Mar-23 (Audited) (Refer Note 4)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-23 (Audited)
1	Total income from operations (gross)	479.81	384.10	340.31	1,338.63	1,033.50
2	Total income from operations (net)	479.81	384,10	340.31	1,338.63	1,033.50
3	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	34.74	97.11	91.86	127.58	117.10
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	34.74	97.11	91.86	127.58	117.10
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	2.25	97.11	48.90	95.09	74.14
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.35	97.11	62.79	96.19	78.03
7	Equity Share Capital	911,32	911.32	911.32	911.32	911.32
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	30		-	191.91	95,71
9	Earnings Per Share (before extraordinary ltems) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	0.02 0.02	1.07 1.07	0.54 0.54	1.04 1.04	0.81 0.81
10	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	0.02 0.02	1.07 1.07	0.54 0.54	1.04	0.81

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter & Year Ended Financial results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindla.com and on Company website www.howardhotelsltd.com

Place: Agra

ICRA

Date : 27th May, 2024

For and on behalf of the Board of Directors of Howard Hotels Limited
Sd/-
Nirvikar Nath Mittal
(Whole Time Director)
DIN: 00536470

## **ICRA** Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Telephone No.; +91.11.23357940, Website: www.icra.in, Email ID: investors@icraindia.com

#### NOTICE

#### (For transfer of equity shares of ICRA Limited (the "Company") to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"))

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), as amended from time to time. The Rules contains the provisions for transfer of equity shares of the Company to IEPF Authority in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in a prescribed manner.

Members may please note that the Company is required to transfer such shares corresponding to the dividend declared for the financial year. 2016-17 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the IEPF Authority as per the Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually vide letter dated May 27, 2024, to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2024-25, for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at https://www.icra.in/InvestorRelation/Index#breadcrumbs. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be September 5, 2024. Further in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation

E-mail : smc@smcindiaonline.com 1 Website : www.smcindiaonline.com



Bandhan AMC Limited (Formerly known as IDFC Asset Management Company Limited)

Mumbai - 400 013. Phone: +91-22-6628 9999, Email: investormf@bandhaname.com

Website: www.bandhanmutual.com, www.bandhanamc.com

Regd. Office Address: 6th Floor, Tower 1C, One World Center, Scnapati Bapat Marg, Prabhadevi (W),

Place: Hyderabad Date: 27.05.2024



**Declaration of Dividend:** 

CIN: U65993MH1999PLC123191

Notice is hereby given that the Board of Directors of Bandhan Mutual Fund Trustee Limited (formerly known as IDFC AMC Trustee Company Limited) (Trustee to Bandhan Mutual Fund) has approved the declaration of the following dividend under the Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW option) of the Scheme(s)/Plan(s), subject to availability of \*distributable surplus, with the Record Date as "Thursday, May 30, 2024.

NOTICE

Scheme(s) Name	Plan(s)	Option(s)	Quantum of Dividend* (Rs. per Unit)	NAV (in Rs.) Per Unit as on May 24 2024
Bandhan Regular Savings Fund	Regular	IDCW	0.0702	14.1519
Bandhan Regular Savings Fund	Direct	IDCW	0.0789	15.8997
Bandhan Equity Savings Fund	Regular	Monthly IDCW	0.074	14.807
Bandhan Equity Savings Fund	Direct	Monthly IDCW	0.081	16.200
Bandhan Arbitrage Fund	Regular	Monthly IDCW	0.0664	13.2901
Bandhan Arbitrage Fund	Direct	Monthly IDCW	0.0711	14.2273
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan	Regular	Bi-Monthly IDCW	0.1262	12.0737
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan	Direct	Bi-Monthly IDCW	0.1439	12.4845

Face Value per unit is Rs. 10/-.

\* TDS and other statutory levies (if any) shall be levied on the amount received by the investor. Considering the volatile nature of markets, Trustee reserves the right to restrict the quantum of dividend upto the per unit distributable surplus available on the Record Date in case of fall in market.

# If in any case the Record Date falls on a non-business day, the immediately following business day shall be deemed to be the Record Date.

All investors whose names appear in the register of unit holders of the Scheme(s)/Plan(s)/Option(s) as on the close of the record date will be eligible to receive the dividend.

# Pursuant to the payment of dividend, NAV of the Scheme(s)/Plan(s)/Option(s) will fall to the extent of payout and statutory levy (if any).

Date: May 27, 2024

LUMAX

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

# LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: 2<sup>™</sup> Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046 Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech, Tel: +91 11 49857832 Email: shares@lumaxmail.com, CIN: L31909DL1981PLC349793

DK JAIN GROUP

# EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in lakhs unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Revenue from contracts with customers	75,737.87	2,82,173.58	49,332.75
2	Profit for the quarter/ year before tax	6,181.09	22,672.74	2,926.10
3	Net profit for the quarter/ year after tax	5,134.31	16,696.29	2,373.17
4	Net profit for the quarter/ year (after taxes and non- controlling interest)	4,420.67	13,018.32	1,864.51
5	Total Comprehensive income for the quarter/ year (after non- controlling interest)	4,096.94	15,866.33	2,650.12
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 2 per share)	1,363.15	1,363.15	1,363.15
7	Earnings per share (face value of Rs. 2 each) (not annualised) Basic & Diluted (in Rs.)	6,49	19.10	2.74
	Key Standalone Financial Information			
1	Revenue from contracts with customers	35,436.62	1,33,457.26	30,323.60
2	Profit before exceptional item and tax for the quarter/year	4,662.23	11,410.81	2,125.23
3	Total Comprehensive income for the quarter/year	3,748.56	12,156.80	2,069.65

fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to the IEPF Authority.

The concerned member(s), whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company shall transfer the shares by way of corporate action through depositories to the IEPF Authority.

In case no valid claim in respect of equity share(s) is received from the members, the Company shall, with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

in case the members have any queries on the subject matter and/or the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies	Link Intime India Pvt. Ltd. Noble Heights, 1" Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592 - 94; Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@linkintime.co.in	ICRA Limited Building No. 8, 2 <sup>et</sup> Floor, Tower A, DLF Cyber City, Phase II, Gurugram - 122002 Phone: +91 124 4545300 Email: investors@icraindia.com		
or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.	Place : Gurugram Date : May 27, 2024	For ICRA Limited (S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer		

Oriental Aromatics Ltd.

Regd. Office: 133, Jehangir Building, 2<sup>nd</sup> Floor, M.G. Road, Mumbai – 400 001 CIN: L17299MH1972PLC285731 Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2024.

	₹ In Lakh (Except per share data)									
		Standalone		~	Consolidated					
Sr.No	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended			
		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023			
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited			
1.	Total Income from Operations (Net)	21,826.58	84,373.03	19,611.59	21,821.18	84,368.52	19,607.48			
2.	Net Profit/Loss for the period (before tax)	1,424.07	1,450.33	200.61	1,411.13	1,405.47	180.18			
3.	Net Profit/Loss for the period (after tax)	1,020.49	948.18	139.08	1,011.63	910.42	119.07			
4.	Total Comprehensive Income for the period	1,015.11	938.30	156.97	1,010.29	904.58	136.96			
5.	Paid-up Equity Share Capital (FV of Rs.5/- each)	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1682.68			
6.	Earnings per Share (EPS)					8.8				
	- Basic & Diluted EPS	3.03	2.82	0.41	3.01	2.71	0.35			

Notes: 1) The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2024. The statutory auditors of the Company have audited the financial results for the quarter and year ended in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have issued their audit reports with unmodified opinion on the audited Consolidated and Standalone Financial Results. 2) The full format of above extract of Financial Results, together with the Report of the Statutory Auditors are available on website of the Stock Exchanges vis. www.bseindia.com & www.nseindia.com and also under "Investor Relations" link of Company's website www.orientalaromatics.com

Place : Mumbai Date : 27/05/2024 For Oriental Aromatics Ltd. Sd/ Kiranpreet Gill Company Secretary & Compliance Officer

Mafatlal

# **MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED**

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 Tel: 079–26444404-06; Fax: 079-26444403 Email: ahmedabad@mafatlals.com; Website: www.mafatlals.com Corporate Identification No.: L17110GJ1913PLC000035

## Notes:

- The above consolidated financial results of Lumax Auto Technologies Limited ("the Company") and its subsidiaries (together referred as "the Group") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2024.
- 2. The Board of Directors of the Company have recommended a dividend of Rs, 5.50 per equity share for the Financial Year 2023-24 subject to approval of the shareholders
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.lumaxworld.in/lumaxautotech).

For and on behalf of the Board of Directors of Lumax Auto Technologies Limited

	D. K. Jain
Place : Gurugram	Chairman
Date : May 27, 2024	DIN: 00085848

#### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in Crores)

	FOR THE QUARTER AND FEAR ENDED MARCH 31, 2024										
0		Standalone				Consolidated					
Sr.	PARTICULARS	For the three months ended on		For the year ended on		For the three months ended on			For the year ended on		
No.	FARTICOLARS	31st Mar, 2024 Unaudited	31st Dec, 2023 Unaudited	31st Mar, 2023 Unaudited	31st Mar, 2024 Audited	31st Mar, 2023 Audited	31st Mar, 2024 Unaudited	31st Dec, 2023 Unaudited	31st Mar, 2024 Unaudited	31st Mar, 2024 Audited	31st Mar, 2023 Audited
1	Total Income from Operations	770.14	434.73	351.35	2,142.22	1,415.62	770.24	434.77	351.43	2,142.46	1,416.91
2	Net Profit for the period										
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.56	17.07	11.76	79.04	40.81	13.56	17.07	11.76	79.04	40.40
3	Net Profit for the period before tax										
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	13.56	17.07	11.76	79.04	40.27	13.56	17.07	11.76	79.04	39.86
4	Net Profit for the period after tax										
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	33.27	17.07	11.76	98.75	37.48	33.27	17.07	11.76	98.75	37.07
5	Total Comprehensive Income for the period										
	[Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and										
	Other Comprehensive Income (after tax)]	(22.78)	116.02	(58.29)	196.22	(73.62)	(22.78)	116.02	(58.29)	196.22	(74.03)
6	Equity Share Capital	14.30	14.26	14.12	14.30	14.12	14.30	14.26	14.12	14.30	14.12
7	Reserves	-	-	-	800.26	600.51	-	-	-	800.08	600.33
8	Earnings per share (face value of Rs. 2/- per share)										
	(not annualized)										
	- Basic (Rs.)	4.67	2.40	1.67	13.92	5.32	4.67	2.40	1.67	13.92	5.26
	- Diluted (Rs.)	4.62	2.37	1.65	13.75	5.28	4.62	2.37	1.65	13.75	5.22
		- C		A		2.0					

#### Notes:

The said results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 27, 2024.

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024 filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the website of the Company at www.mafatlals.com and also available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

H.A.MAFATLAL CHAIRMAN (DIN:- 00009872)

For Mafatlal Industries Limited


The ethics of excellence

ARVIND MAFATLAL GROUP









Place: Mumbai

Date : 27<sup>th</sup> May, 2024 financialexp.epapr.in

28 मई, 2024

#### प्रपत्र सं. 14 [देखें विनियमन 33(2)]

29.04.2024

पंजी. ए/डी, दस्ती द्वारा, अन्यथा प्रकाशन द्वारा कार्यालय रिकवरी अधिकारी-I/II

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) 1ला तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17ए चंडीगढ़

( 3रे तथा 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित )

#### मांग सुचना

ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

श्री नीरज चौधरी एस/ओ

सेवा में.

आरसी/737/2003

(सीडी 1) श्री नीरज चौधरी, पुत्र श्री राकेश मोहन चौधरी श्री नीरज चौधरी, पुत्र श्री राकेश चौधरी

निवासीः मकान सं. 781, सेक्टर 17ए, हाई वैल्यू, गुड़गाँव, हरियाणा, गुड़गाँव-0

सीडी 2) श्री आरएम चौधरी निवासीः मकान सं. 781, सेक्टर 17ए, हाई वैल्यू, गुड़गाँव, हरियाणा, गुड़गाँव–0

सीडी 3) श्री कविता चौधरी

निवासीः मकान सं. 781, सेक्टर 17ए, हाई वैल्यू, गुड़गाँव, हरियाणा, गुड़गाँव-0

अधिसूचित किया जाता है कि ओए/151/2019 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी की गई वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार 04.02.2019 से वसूली तक दंड ब्याज तथा 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर आगे के ब्याज तथा रु. 41005 (रु. इकतालिस हजार पांच मात्र) की लागतों के साथ **रु**. 38,79,734.56 (रु. अड्तीस लाख उन्यासी हजार सात सौ चौंतीस एवं पैसे छप्पन मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से/पूर्णतः सीमित) बकाया हो गया है।

. एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सुचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार उसकी वसूली की जायेगी। 3. आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि को या उससे पूर्व अपनी परिसम्पत्तियों का एक शपथ पत्र पर विवरणों की घोषणा करें।

4. एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि अग्रिम कार्रवाई के लिये 26.9.2024 को 10.30 पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उ पस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप अधोलिखित का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी हैं:

क ) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्रवाई की इस सचना के तत्काल बाद शरू होने वाली अवधि के लिये देय ब्याज ख) इस सूचना तथा वारन्ट्स की सर्विस तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया राशि की वसूली के लिये शुरू की गई अन्य सभी कार्रवाईयों के संदर्भ में वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर दिनांक 29.4.2024 को दी गई।



CONTAIN एक कॉनकॉर A Navrata	रतीय कंटेनर निगम लिमिटेड ER CORPORATION OF INDIA LTD. 19रतन कम्पनी (मारत सरकार का उपक्रम) 1 Company (A Govt. of India Undertaking) 1 कि पीच बोब्ब क्यूंग्रिक फंट (लाक्बर्य बोबन रो देवर के कर्म), रई दिनी- गाळा
ethate pur Medister purse in execut	<mark>ईनिविदा आमंत्रण, सूचना</mark> । कार्य हेनु निवेध जानने के लिए एनव फेल्ट प्रमाले में ई-निमिधा जामवित की जाती है
भविवा श	CONIEP/A-l/Devp of MMLP-Mandalgarh /T-3/E-87871/2024
होर्य वर गरम	कोटा डिवीजन अल्पूलीजर के मंडलगढ़ (एमएलजीएष) स्टेशन पर जीसीटी पीलिसी के अंतर्गत मल्टी मॉडल कार्गी टर्मिनल के विकास हेतु 25 किल्लेयर अरेएमई कार्य का विजाइन, ड्राइंग, आपूर्ति, संस्थापम (इरेक्शन), परीक्षण और वालू करना।
ब्रनुमन्तित लागत	\$3.68.97.641.26/-
एमं करने की अवधि	१२ (बारह) महोने
न्होहन शामित	१३.३४.५६० / – (र्य-गुनतान 🕷 मध्यम स)
नेविवा दस्तावेज की जागत (अवस्तिवेष)	1919 - E
लेविया प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिवेश)	83.640/- (समी कर एव बाल्को सहित) ई-जुमतान के माध्यम थे
नेविया की बिजी (ओनलाइन) की तालेख	28.05.2024 (यूर्वाहन १९०० वर्ज) से 18.06.2024 (लपराहन १७:00 वर्जे) तक
मेविया जमा करने की लारीख और समय	१९.06.2024 (अग्रस्म १७.60 वर्ण तम)
नेविंवा कोलने की तारीत्व और लमय	20.06.2024 (पूर्वाहर 11.30 मन)
त्वतंता है। इसके अलावा, इस निचिया ।	के सबंध में अनुसद इत्यादि हेतु कुपाम वेषसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध दा दल्लामेल को मेनलाइट www.tenderwizard.com/CCIL से ही व्ययनतीय किया जा ते संबद्ध में कुद्धिपत्र / अनुसंभ, वदि प्रदेई हो, संपत्र www.concorindia.co.in ति संदुद्ध प्रक्रवारमेंट पार्टल (संवीर्षी) पर ही प्रकर्तनेता किया जाएगा। उपल हेतु सम्पत्रत समूह महत्व्यक्षर (संविधीजना) फोन में : 911-41322509

	EXTRACT OF AUDIT FOR THE QUARTER AND Y			(Rs./Lacs)
R	Particulars	3 Months Ended 31.03.2024 Audited	Corresponding Quarter for the Previous Year Ended 31.03.2023 Audited	Previous Year Endec 31.03.2024 Audited
	Total moome from operations	20.01	19.05	78.40
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.62	10.61	47.11
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.62	10.61	47.11
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.55	(1.18)	34,04
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.55	(1.18)	34.04
	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85,01
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinuing	174.13	140.09	174.13
	operations) (Not Annualised) (in Rs.)	0.06	0.01	4.00

	The set of
ł	Dinesh Khandelwai
ŀ	Director (Finance) & CFO
ŀ	DIN: 00161831



No

Exe

201

Place: KANPUR

)ate: 27.05.2024

# MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

तभी संबंधित व्यक्तियों की लूबना के लिए एलद्र्यांत सूचना दी जाती है कि 30.06.2023 & MSGL, SPL-16, One plue, Guid Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenune Cold loans up to 30.09.2023 and MSGB, SME Suvarn & EMI due up to 31.03.2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित ज्ञाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ा का रतमय बीत चुका है तथा फिल्हें बार-बार सुकना दिए जाने पर भी अब तक । इद्यए नहीं गया है उनकी नीलामी 06.06.2024 व 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएंगे।

HALDWANI DISTRICT - HALDWANI-DHUNGI ROAD: 421700007, 421700015, 421700020, 421700026, 42170003 421700041, 421700046, 421700048, 421700065, 421700066, 421700074, 421700086, 421700254, 421700267, 42170029 F2113, F2373, F3654, F3555, F3576, F3604, F3596, F3610, F3626, F3626, F3630, F3649, F3658, F3677, F3678, F368 F3659, F3714, F3715, F3716, F3731, F3736, F3737, F3750, NAINITAL DISTRICT - RUDRAPUR: 422400038, 42240004 422400043, 422400050, 422400067, 422400069, 422400138, 422400183, F1821, F2663, F2785, F2962, F4026, F404 F4320 F4338 F4361 F4368 F4374 F4384 F4383 F4414 F4440 F684

गेलामी अपनी–अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएंगे। क्याय ध्यान दें कि यदि नीलमी किंगी कारणवत्त उसी दिन पुरी न से पा तो नीलामी 15.66 2024 at 10.00 am at HALDWANI-DHUNGI ROAD: Muthoot FieCorp Ltd., Frist Floor, Ratanalaya 5-1685 Kaladhundi Road, Haldwani, Uttarakhand - 253138. RUDRAPUR; Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, No. C-52, Awas Vikas Naintal Road, Austracur, Utheraktiand - 263753, पर आयोजित की जाएगी। निविद्यकर्वाओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान-पत पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविधकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा । - मुत्तूट जिलकॉर्य तिमिटेड

#### कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेंड ( kotak जीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वां तल, भूखंड सं. 7, सेक्टर-125, डेल कैम्पस के समीप, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

# अधिग्रहण सूचना

जबति, उद्योगस्तावस्कर्ता ने कोटक महिंदा बैंक कि के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में विलीय परिसम्प्रतिायों वो प्रतिमुतिकरण एवं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिमूति सित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 वा 64) वे अंतर्गत और प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) गियमावली 2022 के निवम 3 के साथ पहित प्रांश (35/2) के अंतरीत प्रयत्न रुचित्तमी के प्रयोगाल्तर्गत अहां नीचे विवरणितानुव व्यानकलोओं को मांग सुचनाए निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उखारकलोंसों की सुचनाओं जी प्रापित की लिभि से 80 दिवसी डे अंदर, उक्त सुकनाओं में अंकित रात्रि का, मुगलान की वास्तरिक दिपि तक सम्मत लागती, शुल्कों और व्यक्तें के साथ वीतेनुगतान करने को कहा गया था। उक्त उप्पारकर्ला(पण)/लह-उप्पारकर्ता(पण) राषि का प्रतिपुगतान करने में विषया हो चुके हैं अनएव प्रत्याद्वारा व्याप्कतों / सह-व्याप्तत्वों को तथा जनवाधारण को संवित किया प्राप्त हैं कि अधेणत्वारक्तनी यहां इसने लिप्न विवरणित सम्पत्ति का उतन नियमावली के निवम a के साथ प्रतित उक्त अधिनियम की धारा 13 की ट्य-का (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त प्रवित्रणों के प्रयोगान्तर्गत. उसके साथ अधित तिथियों पर, अधिवहण कर लिया है। ज्यारकतांकों को विषेष रूप में तथा जनसंखारण को एतंद्रद्वारा सम्पत्न रूप में सावधान किया जाता है कि सम्परितर्दी का लेन-देन न क ाथा सम्पतितथी का कोई य किसी मी प्रकार का लेग-चेन, तहा जसमें अस्तोल सुचना में विभित्तिष्ट एक शांध और इस प संबंधित लियियों से आकलित कामी आपत, लागलों एवं गुल्कों हेतु कोटक महिंदा बैंक लिमिटेड के प्रमाशनीन होगा। तथाएकतौथ का भ्यानावर्णण प्रतिभुत परिसंपतित्यों को छुड़वाने के लिए जपतच्य लगय के संदर्भ में अधिनिवन की धारा 12 की तथ-भार (8) वे प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकतोओं, अनुसूत्रित संपतित बकामा देखराशि धारा 13(2) के अत्संत मित मांग मुचनाओं और चनवो अंतर्गत अन्यविंत रातिया, अधिमङ्ग्य की तिर्दिश के विवरण यहां इसमें नीत्वे दिए नए हैं उषारकर्ता, लड्ट-उषारकर्ता के लाम तथा अवल संपतित 1. अधियहण की ठिंचि 2. अधियहण का प्रकार के चिवरण 3. मांग सुवजा तिथि 4. बक्स्या देवराहि। रू. में पते, ऋष खाता सख्या, ऋष हांद्रि संपत्ति का बह सारा दुवव्या और पासेल: 1. 23.05.2024 जनमेरी एवं अब्दुल मजीद एंख कंपनी यू एक घर कुल बोजकल 714, वर्ग फुट 2, सांकेतिक अभिग्रहण इटस प्रोप. मि. अजमेरी और मजीद, समी यांनी 67 वर्ग मीटर जो स्थित है मकान 🛽 27.09.2023 का घर 28, सदनपुर उर्ध, जालीन, पू.पी. गंबर 115 मोहरुला सदमपुरी परगमा 🛛 रा. 13,99,331 / -285001, समी घर मकान नंबर 115 उन्हें जिला जालीन – 285001 में इस (तेपर लाख निन्यानवे मोहल्ला सदन पुरी, तहसील उरई, जिला। प्रकार घिरी हे संपत्ति पूर्वः विदिया, हजार तीन सौ इकतीस वालीम, व.प्र.– 285001 जल्म खाता उसके बाद हावी मुलजार का घर, माज) 27.09.2023 तक पष्टिचमः चाटोले मिस्त्री और चरबाजा का देख और भुगतानयोग्य संख्या: V59BLSFT335152 जल्म धर, यत्तर: मोहम्मद खान का घर, 28.09.2023 से पूर्ण राशिः रु. 9,34,239 / - (नी लाख चौतीस दक्षिणः नर हसन का धर, बंधककर्ता का मुगतान तक लागू व्याज हजार दो सौ चनतालिस समये मात्र)। नाम: मि. मजीहत के साथ देया मेससे रिफाकती इलेक्ट्रिकल्स जापने मकान नंबर 349, मोहल्ला चिनमोदवे 1. 23:05:2024 मालिक गुलाम हुसैन के माध्यम से पताः सांकेतिक अधिग्रहण का बह सारा दकडा और पार्सल, जो 293; तकिया मस्जिद के पास, मोहल्ला 3. 27.09.2023 जालीन ितना do y off चिमन यूथे, जालान– 285123 और गुलड़म 4 0, 8,42,380/ जालीन-285123 में सियात है, विवन्ध हरीन युत्र मुलाम मोहम्मद और नाजीरा (आठ लाख बयालीस विलेख के अनुसार संपत्ति की सीमाएं: वेगम पत्नी गुलान हुसैन दोनों का पता हजार तीन सो जस्सी पूर्वा चंदू और बाबू का घर, पश्चिम विमन दुवे, मोहल्ला, जालीन-285123, रूपाये मान्न) 27.09,2023 सङ्क, उत्तर: पिट्टे उम्म फस्तूबराती त्तक देव और 28.09. इसके अलावा दोनों का पता : मकान नंदर शाह का घर, दक्षिण, मिहु शाह का 2023 से पूर्ण भुगतान 349. मोहल्ला, चिनमन दुवे, वाल्वा, घर, गिरवी रखने वालों का नाम: जालीन जिला, जालीन-285123. ऋष तक लागू बाज के साथ नाजिरा बेगम पत्नी गुलाम रसूल। चेख । खाला संख्या: V59BLSET920604, स्वीकृत आरण राशि क. 7,22,520 🦯 (सात लाख बाईस हजार पांच ली और वीस रुपये मान्न)। दिनांक : 28-05-2024, स्वान : उरह पाचिकृत अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

#### आईबीसी, 2016 के तहत ई नीलामी बिक्री सूचना

#### मेसर्स आरजी इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), सीआईएनः U70101DL2005PTC135052 पंजीकृत कार्यालय : जी-02, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर एसयू एलएससी बी-ब्लॉक आरजी सिटी सेंटर, लॉरेंस रोड, दिल्ली-110035 की आईबीसी, 2016 के तहत नौवीं बिक्री सूचना परिसमापक कार्यालय : 1670/120, शांति नगर, त्रि-नगर, दिल्ली -110035

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, न्यायालय—II, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा स्टैंड–अलोन आधार पर मेसर्स आरजी इंफ्रा–बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्ति की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

	विवरण	ई-नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (भा रू.)	ईएमडी राशि और दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि	बोली वृद्धिशील मूल्य
H	आरजी सिटी सेंटर, लॉरेंस रोड, दिल्ली—110035 में कार्यालय स्थान और संयन्त्र तथा मशीनरी	तिथि ; 20.06.2024 समयः सुबह	रु. 4,76,20,100 ∕ — (रु. चार करोड़	रु.47,62,010 ∕ − (रुपये सैंतालीस लाख बासठ	रु. 1,00,000 ∕ − (रु. एक लाख
	यूनिट नं. 101, माप सुपर एरिया 431.07 वर्ग मीटर तथा कवर्ड एरिया 301.75 वर्ग मीटर ऑफिस टेबल (पुराने)–2 नग, डक्टेबल यूनिट (पुरानी)–2 नग, तथा लकड़ी की आलमारी (पुरानी)–1 नग शामिल है	11.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ)	छिहत्तर लाख छब्बीस हजार एक सौ मात्र)	हजार दस मात्र) 18.06.2024	मात्र )

नेरीक्षण की तिथिः परिसमापक को पूर्व सूचना के साथ 14.06.2024 को 5.00 बजे अप. तक।

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथिः 18.06.2024 को शाम 5.00 बजे तक।

प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं रार्ते इस प्रकार हैं:

जनसता

- ई—नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'', ''जैसा है वैसा आधार पर'' और श्विना संसाधन के आधार पर'' आयोजित की जाएगी क्योंकि ऐसी बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (https://ncitauction.auctiontiger.net) के माध्यम से किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
- बोलियां परिसमापक को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। संपूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ बोली प्रपन्न https://ncitauction.auctiontiger.net की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। संपर्कः श्री प्रवीण +91–9722778828 पर, ई–मेल : praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net /support@auctiontiger.net

उपरोक्त ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में बेची जाने वाली पहचान की गई संपत्तियों का विवरण भी दिया गया है। परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को

- स्थगित / स्थगित करने / रद्द करने या किसी भी चरण में किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
- बिक्री दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।

#### राकेश कुमार जैन, परिसमापक

दिनांक:28 05 2024	पंजी सं: IBBI/ IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068
स्थानः नई दिल्ली	ईमेल: rginfrabuild@gmail.com

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 37 ए के साथ
पठित आईबीसी कोड, 2016 के तहत एनआरआरए के एसाइनमेंट के अधिग्रहण
हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण
मेसर्स देव डेन्सो पावर लिमिटेड (परिसमापन में)
सीआईएन: U74200DL1997PLC091296
पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 20 जून 2024
क्वालिफाइड प्रतिभागी की घोषणा की तिथि: 22 जून 2024

क्वालिफाइड प्रतिभागी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि: 29 जून 2024 प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 1 जुलाई 2024, शाम 6:00 बजे तक

डेव डेन्सो पावर लिमिटेड के परिसमापक एतद्द्वारा नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स (एनआरआरए) के असाइनमेंट के लिए इच्छुक व्यक्तियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं। डेव डेन्सो पावर लिमिटेड (परिसमापन में) [प्राप्य/व्यापार देनदार/देनदार (अप्राप्त/शेष)/अन्य प्राप्य और माननीय एनसीएलटी के साथ दाखिल परिहार आवेदन जिन्हें नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स माना जाता है] के तहत परिसंपत्तियों के असाइनमेंट/हस्तांतरण के लिए आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 (आईबीसी, 2016 के दायरे में) के विनियमन 37ए के तहत ''जैसा है जहां है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है और बिना किसी आश्रय के आधार पर'' प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। असाइनमेंट/स्थानांतरण आईबीसी, 2016 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए विनियमों और प्रक्रिया सूचना

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
पटिचालनों से कुल आय	107.24	96.31	415.27	367.34	114.92	96.31	423.04	367.34
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदी से पूर्व)	11.50	13.97	53.44	51.42	11.53	13.87	53.74	51.33
कर से पूर्व अवधि के लिए क्षुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण- एंव/अथवा- विशिष्ट- मदो- के बाद)	11.50	13.97	53.44	51.42	11.53	13.87	53.74	51.33
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	8.41	9.55	39.40	37.43	8.42	9.54	39.81	37.45
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	8.09	9.66	38.96	37.15	8.22	<u>9.61</u>	39.40	37.16
इक्विटी शेयर पूंजी	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पन्न में दर्शाई गई है	194.04	156.70	194.04	156.70	194.49	156.70	194.49	156.70
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. १०/- प्रति का) अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालमें के लिए) मूल तथा तरल	7.80	8.86	36.54	34.72	7.81	8.84	36.92	34,74

#### नोटस :

स्थान : नोएडा

दिनांक : 27 मई, 2024

उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, २०१५ के विनियमन ३३ तथा सेबी सर्म्युलर CIR/CFD/FAC/62/२०१६ तिथि ५ जलाई, २०१६ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैज अर्थात बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेंडएलॉन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टेण्डएलॉन एवं कंसोलिडेटेड तिमाही ओर वर्ष के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी को वेबसाईट अर्थात www.racigeartech.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थति www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

ः ३१ मार्च, २०२४ को समाप्त तिमाही और वर्ष के विस्तृत अंकेक्षित स्टेंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की "सीमित समीक्षा" कमिटी द्वारा की गई तथा २७ मई, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

> निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी और से आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड गुरशरण सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक



# **GOODYEAR INDIA LIMITED**

CIN: L25111HR1961PLC008578

REGISTERED OFFICE: MATHURA ROAD, BALLABGARH (DIST. FARIDABAD) - 121004, HARYANA Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi\_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Current 3 months ended (31/03/2024)	Preceding 3 months ended (31/12/2023)	Corresponding 3 months ended (31/03/2023)	Year to date figures for current year ended (12 Months) (31/03/2024)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2023)
	(Audited) (Refer Note 6)	(Unaudited)	(Audited) (Refer Note 6)	(Audited)	(Audited)
1. Total income from operations	55,421	59,658	65,615	256,868	294,380
<ol> <li>Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)</li> </ol>	(538)	3,011	4,566	12,803	16,538
<ol> <li>Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)</li> </ol>	(538)	3,011	4,566	12,803	16,538
<ol> <li>Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)</li> </ol>	(421)	2,186	3,361	9,485	12,286
<ol> <li>Total Comprehensive Income/(loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]</li> </ol>	(358)	2,246	3,296	9,674	12,165
<ol> <li>Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)</li> </ol>	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
<ol> <li>Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.</li> </ol>				58,274	69,176
<ol> <li>Earnings/(loss) Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):         <ul> <li>(a) Basic (Rs.)</li> <li>(b) Diluted (Rs.)</li> </ul> </li> </ol>	(1.83) (1.83)	9.48 9.48	14.57 14.57	41.12 41.12	53.26 53.26

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री रितेश चौहान (91 7355036788) तथा श्री सोमेश सुंदरियाल (91 9910563402) से संपर्क करें।

✓ YES BANK	पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र — 400055 शाखा कार्यालय : महालक्ष्मी टॉवर्स भूतल, भूखंड सं. 12 एवं 13, 112 सिविल लाइंस, बरेली, 243001 वेबसाइट : www.yesbank.in
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ताओं, गारंटर(ओं) एवं बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा किया जा चुका है, उसका विक्रय 11 जुलाई 2024 को ''जैसी है जहां है'', जैसी है जो है'' एवं ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा, जो कि निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर तथा बंधककर्ताओं की ओर से संविदागत दर पर भावी ब्याज तथा शुल्कों के अधीन बकाया निम्नांकित राशि की वसूली के लिये होगा।

उधारकर्ता तथा ह—उधारकर्ता, गारंटर का नाम	मांग सूचना राशि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (रु.)
उधारकर्ता) . अंशुमान गुप्ता	सौ एवं नौ पैसे मात्र) 20.12.2022 के	सिविल लाइंस वार्ड 09	42,84,000 / -	4,28,400 /

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 09 / जुलाई / 2024 संपत्ति के निरीक्षण की तिथि : 04 / जुलाई / 2024

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.yesbank.in/aboutus/media/auction-property – प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.yesbank.in अथवा https://sarfaesi.auctiontiger.net पर दिये गये लिंक को देखें।

निविदा प्रलेखों 🖊 ई–बोलीदान सची प्राप्त करने या अचल संपत्तियों 🖊 प्रतिभुत परिसंपत्तियों के निरीक्षण में होनेवाली किसी भी कठिनाई तथा प्रश्नों के लिये, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारियों, श्री कमल अरोड़ा, संपर्क नं. 9560524443 एवं ई—मेल kamal.arora@yesbank.in से तथा मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आक्शन टाइगर) अहमदाबाद के पदाधिकारियों तथा बोलीदाता सहायता नंबर : +91 9265562821, 079-61200594/598/568/587/538, ई-मेलः support@auctiontiger.net से संपर्क करें ।

#### उधारकर्ता / गारंटरों के लिये विक्रय सूचना

उपरोक्त को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के रूप में समझा–माना जाय।

दिनांक : 28—05—2024, स्थान : बरेली हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी

	SHIVKAM
S)	Regd. Office: Ground Floo
me.	Tel: 011-26192964, e-mail: s
	and the second

AL IMPEX LIMITED or, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016 siv\_kamal@yahoo.com.info@shivkamalimpex.com

Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

### Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

No.Particulars31.03.24 (Audited)31.03.23 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.24 (Audited)31.03.22 (Audited)31.03.22 (Audited)31.03.23 (Audited)31.03.23 (Audited)31.03.23 (Audited)31.03.23 (	SI.		Quarte	r ended	Year ended		
1       Operations       14.03       7.85       44.52       33.3         2       Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)       4.67       (1.97)       26.68       13.5         3       Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)       4.67       (1.97)       26.68       13.5         4       Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)       2.84       (1.51)       19.31       10.1         5       Total Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]       2.84       (1.51)       19.31       10.1         6       Paid up Equity Share Capital       100.56       100.56       100.56       100.56       100.56         7       Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet       100.56       100.56       575.84       556.5	No.	Particulars	A DATE OF A	100 D 200 C 2275 D 11	CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	31.03.23 (Audited)	
2the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)4.67(1.97)26.6813.53Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)4.67(1.97)26.6813.54Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)2.84(1.51)19.3110.15Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss)) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]2.84(1.51)19.3110.16Paid up Equity Share Capital100.56100.56100.56100.56100.567Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet100.56100.56100.56100.56	1		14.03	7.85	44.52	33.51	
3the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)4.67(1.97)26.6813.54Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)2.84(1.51)19.3110.15Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]2.84(1.51)19.3110.16Paid up Equity Share Capital100.56100.56100.56100.56100.567Reserves (excluding Sheet100.56100.56100.56575.84556.58Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized10101010	2	the period (before Tax, Exceptional and/or	4.67	(1.97)	26.68	13.53	
4       the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)       2.84       (1.51)       19.31       10.1         5       Total Comprehensive income for the period for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]       2.84       (1.51)       19.31       10.1         6       Paid up Equity Share Capital       100.56       100.56       100.56       100.56       100.56         7       Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet       100.56       100.56       575.84       556.5         6       Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized       575.84       556.5	3	the period before tax (after Exceptional and/or	4.67	(1.97)	26.68	13.53	
5       Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]       2.84       (1.51)       19.31       10.1         6       Paid up Equity Share Capital       100.56       100.56       100.56       100.56       100.56         7       Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet       575.84       556.5         8       Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized       575.84       556.5	4	the period after tax (after Exceptional and/or	2.84	(1.51)	19.31	10,13	
o     Capital     100.56     100.56     100.56       7     Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet     575.84     556.5       Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized     575.84     556.5	5	Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive	2.84	(1.51)	19.31	10.13	
7     Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet     575.84     556.5       Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized     575.84     556.5	6		100.56	100.56	100.56	100.56	
10 /- each) (not annualized	7	Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance			575.84	556,54	
Basic Rs. 0.28 Rs. (0.15) Rs. 1.92 Rs. 1.0	8	10 /- each) (not annualized for quarter) Basic	115,070,507,571		A 200 YOF 00, TO 2	Rs. 1.01 Rs. 1.01	
Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Audited Financial Resul	Not						

#### दस्तावेज के अध्यअधीन होगा। एसाइन की जाने वाली संपत्तियों का विवरण

1. वित्तीय परिसंपत्तियों / देनदारों / अन्य प्राप्य राशि सहित कंपनी की अन्य परिसंपत्तियां / बही ऋणों का दृष्टिबंधक (जैसा कि कॉपोर्रेट देनदार की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में दशार्या गया है) / शेष देनदार विभिन्न सरकारी निकायों के साथ छोटी जमा सहित प्राप्तियां और

2. माननीय एनसीएलटी के समक्ष दायर परिहार आवेदनों में अंतर्निहित परिसंपत्तियां, यानी संहिता की धारा 43 से 51 और 66 आदि में तरजीही, कम मुल्य वाले, जबरन वसुली वाले क्रेडिट और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए कार्यवाही में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए।

अर्थात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 43,45, 50,60(5), 66,67 और 235ए के तहत सी.पी. (आईबी)-81(पीबी)/2019 में आईए सं. 1472/2020 (आदेश दिनांक 17.05.2023 के अनुपालन में आईए संख्या 1472/2020 की प्रार्थना में संशोधन के संबंध में संशोधन आवेदन आईए संख्या 3397/2023 के साथ पठित) के साथ अंतर्निहित कार्यवाही का असाइनमेंट।

\*\*कुपया आगे ध्यान दें कि कॉरपोरेट देनदार के नाम पर अचल संपत्ति परिसमापक द्वारा पहले ही बेची जा चकी है. जिसमें फर्नीचर और फिक्स्चर और चल कार शामिल है और बीएचईएल & एलएंडटी (सागर) द्वारा देय अंतिम राशि परिसमापक द्वारा पहले ही वसूल की जा चुकी है।

उपरोक्त कार्य अधोहस्ताक्षरी द्वारा ''जैसा है जहां है, जो है यही है, जो कछ भी है वहीं है और बिना किसी आश्रय'' आधार पर किया जाएगा।

असाइनमेंट भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 37ए के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों और विस्तृत प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन होगा।

इच्छुक प्रतिभागी 06.2024 की शाम 5:00 बजे तक ''देव डेंसो पावर लिमिटेड के एनआरआरए में रुचि'' विषय के साथ liquidation.devdensopower@gmail.com, pujabahry@yahoo.com पर ईमेल भेजकर उपलब्ध दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं।

परिसमापक हितधारकों की परामर्श समिति के परामर्श से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा पर आगे की प्रक्रिया. नियम और शर्तों आदि की सलाह देगा। परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सरक्षित है टिप्पणीः

# यथाप्रयोज्य जीएसटी अतिरिक्त।

# सभी निवेशकों को अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के साथ या उससे पहले कंपनी की तत्काल वसुली योग्य संपत्तियों के असाइनमेंट या हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव प्रदान करना होगा. जो राशि उन संपत्तियों के लिए प्रस्तावित राशि के 10% के बराबर है जिसके लिए वे परिसमापन में मैसर्स देव डेन्सो पावर लिमिटेड के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से ईएमडी/धरोहर राशि के रूप में पेशकश कर रहे हैं।

जारीकर्ता

पुजा बाहरी देव डेन्सो पावर लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसमापक

आईपी पंजीकरण नंबर IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063

59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 फोनः 9811071716

ईमेलः liquidation.devdensopower@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

# एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 30वीं वार्षिक आम बैठक वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम,2013 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 05 मई, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित नवीन परिपन्न दिनांकित 14 दिसंबर, 2021 और 5 मई, 2022 के सामहिक परिपत्र ('एमसीए परिपत्र') के रूप में रांवर्गित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्राव्यानों के अनुसार, कंपनी अपनी 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 22 जून, 2024 दिन को प्राप्त: 11:00 बजे उपरोक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार और एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना वीखियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या जन्य ओडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ओडियो यिजुअल साधनों (ओएयीएम) के माध्यम से आयोजित कर रही है। एजीएम के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

उपरोक्त एमसीए परिपञ्चों द्वारा दी गई छुट के आधार पर कंपनी वीसी के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजिल कर रही है और सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों को प्रदान कर रही है। तदनुसार, कंपनी उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करती है, जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं या कंपनी के साथ अपने इंमेल पते अपजेट नहीं किए हैं, चन्हें जरुद से जरुद पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है। ईमेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी

पते के पंजीकरण के लिए अनुरोध-सदस्यों से अनुरोध है कि वे सेवी द्वारा निर्धारित फॉर्म एसआर–1 में लामांश और⁄या अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए अपने वैध ई–मेल पते. मोबा, नंबर, बैंक खाते के विवरण के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मेसर्स इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को delhi@linkintime.co.in पर को अपना अनुरोध प्रस्तुत या नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 2 सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास कपुरी, नई दिल्ली—110068 पर पोस्ट के माध्यम से अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं।

पता अदातन करने के लिए अनुरोध-, डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जो एक ईमेल पता पंजीकृत करना चाइते हैं ६ अपने मौजूदा ई-मेल पत्ते को अपडेट करना चाहते हैं उनसे रोध है कि वे अपने संबंधित जिपॉजिटरी सहमागियों को विवरण प्रदान करें। या ध्यान दें कि जो शेयरधारक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करते हैं, वे एजीएम और अन्य वेत दरतावेजों की सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। ई--वोटिंग प्लेटफॉर्म पर वोटिंग प्रक्रिया सर्वचित विवरण और युजर आईटी एवं पासवर्ड शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से प्रदान किया गा। इस संबंध में, जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, ये भी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से enotices@linkintime.co.in पर आवेदन 8े रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद रिमोट ई-वोटिंग गाण्यम से अपना चोट डाल सकते हैं या फोन : 022-49186000 पर संपर्क करें। एजीएम के स में पंजीकरण और मतवान प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। त्य ध्यान दें कि एजीएम की सचना कंपनी की वेवसाइट www.smcindiaonline.com और नी के रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट.मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइयेट लिमिटेड की वेबसाइट s://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजी पर भी प्रसा. किया जाएमा जहां कंपनी की प्रतिभतियां सुधीयद हैं। स्टॉनिक रूप में शेयर रखने वालें सदस्य ध्यान दें कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते के सापेक्ष कृत बैंक विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश के मुगतान के लिए किया जाएगा। इस संबंध हो सदस्य अपने बैंक स्वाते का विवरण प्रदान करने में विफल रहते हैं, उन्हें कंपनी ऐसे शेयरवारक, लाभाष्ट चेकथेठेमांड ड्राफ्ट ड्राएा प्रचान करेंगी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए विसीय वर्ष के अतिम लामांश के लिए सदस्यों की पात्रता नियोरित करने की रिकॉर्ड तिथि 7 जून, 2024 है। मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लामांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित की रिकॉर्ड तिथि 7 जून, 2024 है। इसके अलावा, कंपनी के सवस्थों का रजिस्टर और शेयर फर बुक 8 जुन, 2024 से 12 जुन,2024 (दोनों दिन सम्मिलित)तक बंद रहेंगे। शेषस्थाएकों/सदस्यों के पास कोई प्रश्न हैं, तो ये instameet@linkintime.co.in पर ईमेल भेज ते हैं अधवा - दूरभाष: 022-49186175 पर संपर्क कर सकते हैं |

1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter and audited financial results for the year ended March 31, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations. The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. 3. The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".

- 4. The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 15 per equity share of Rs. 10 each for the Financial Year ended March 31, 2024, aggregating to Rs. 3, 460 lakhs, subject to approval of Members at the ensuing Annual General Meeting. The register of members and share transfer books will remain closed from July 24, 2024 to July 30, 2024 (both days inclusive).
- 5. On July 21, 2022, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued notification containing Regulations on Extended Producer Responsibility (EPR) for Waste Tyre applicable to Tyre manufacturers and Recyclers. As per the notification, the Company has a present legal obligation as at March 31, 2024, for FY 2023-24 (quantified basis the production in FY 21-22) and for FY 2022-23 (quantified basis the production in FY 20-21). As at March 31, 2023, the Company could not estimate the liability reliably since the infrastructure for the same was not enabled and hence this obligation was not provided for. In the current year the enabling framework has been established for the Company to reliably estimate the liability and accordingly INR 1,400 lakhs has been provided in the books in the current year including Rs 447 lakhs pertaining to FY 22-23 obligations, which has been disclosed as part of other expenses. The Company has made representation to the Government through Industry forum to defer the applicability and proposed certain changes in the modalities.
- 6. The figures of last quarter of current and previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year which are subject to limited review.

7. This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2024. The financials results for the year ended March 31, 2024 have been audited by the Statutory Auditors of the Company and they have expressed an unmodified opinion/conclusion thereon.

For GOODYEAR INDIA LIMITED

Sandeep Mahajan

Chairman & Managing Director

## एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

Sd/

Manu Jain

(Director)

DIN-07801467

For Shivkamal Impex Limited

न कुमार) .पी. (कॉर्पोरेट मामले और कानूनी), कंपनी सचिव और सामान्य परामर्शवाता i本: 28 平ई, 2024 न : नई दिल्ली

रिट पहचान संख्या (सीआईएन: L74899DL1994PLC063609)

कृत कार्यालय = 11/6वी, शांति चैमवर, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 91-11-30111000, 40753333, जीवस, 91-11-25754365, गि sme@smeindiaonline.com, वेक्साइट:www.smeindiaonline.com





Place: New Delhi

Date: May 27, 2024







Place: New Delhi

Date: 27.05.2024